



जनमत पार्टी – जिन्दाबाद !
सामुदायिक स्वराज – जिन्दाबाद !
डा. सी. के. राउत – जिन्दाबाद !

चुनाव चिन्ह:

लाउडस्पीकर (हर्न)

सब को देखे बार बार, जनमत पार्टी अब की बार
सामुदायिक स्वराज लायेंगे, जनता-राज बनायेंगे
भ्रष्टाचार मिटायेंगे, १० लाख रोजगारी दिलवायेंगे

जनमत दें, सारे अधिकार लें

मधेश की मिट्टी के प्रति ईमानदार, निःस्वार्थ रूप से मधेश के लिए हर समय जान तक देने के लिए जूनून रखनेवाले, हरेक तरीके से स्वच्छ, जागरुक ऊर्जाशील योग्य कार्यकर्ताओं वाली जनमत पार्टी से जुड़ें, समृद्ध मधेश का निर्माण करें, अपना भविष्य सुनिश्चित करें।

जनमत पार्टी ही क्यों ?

1. **सामुदायिक स्वराज** लाने के लिए: जहाँ जनता को लगे कि यह मेरा ही शासन है, किसी नेता, पार्टी या कर्मचारी का नहीं।
2. नेता/जनप्रतिनिधिद्वारा संतोषजनक काम नहीं करने पर **'राइट टू रिक्वाल'** अधिकार प्रयोग करके उसे पदसे कभी भी हटाकर वापस करने का अधिकार जनता को देने के लिए।
3. नेताओं की **मनोमानी वाला राज को खत्म** करके जनता की वास्तविक संप्रभुता स्थापित कर **'जनता-राज'** कायम करने के लिए।
4. स्थानीय स्तर से संघीय सरकार तक में **प्रत्यक्ष लोकतन्त्र** के कार्यान्वयन के लिए। स्थानीय स्तर में भी हरेक प्रमुख निर्णय तथा विकास परियोजना चयन प्रत्यक्ष लोकतन्त्र द्वारा (जैसे मोबाइल द्वारा जनता का मत लेकर) करने के लिए।
5. किसी भी प्रस्ताव पर ५ लाख मतदाता के हस्ताक्षर पेश करने पर **जनमत-संग्रह** कराने का प्रावधान लाने के लिए।
6. UN साधारण सभा के द्वारा १९६० दिसम्बर १४ में पारित निर्णय 1514 (XV), तथा १९६६ दिसम्बर १६ में पारित निर्णय 2200A (XXI) ICCPR/ICESCR अनुसार **समुदाय के आत्मनिर्णय का अधिकार** स्थापित करते हुये संघीयता, स्वायत्तता और गणतन्त्र को मजबूत बनाने के लिए।
7. **ILO 169** को कार्यान्वयन कर साधन-स्रोत पर मधेशियों का **अग्राधिकार** कायम करने। जल, जमीन, जंगल सहित के साधन-स्रोत पर अपने नियन्त्रण के लिए।
8. हरेक चीज में भारी **'कर/राजस्व'** लगाकर मची सरकारी लूट को रोकने के लिए।
9. **जनलोकपाल** जैसे संयन्त्र लाकर **भ्रष्टाचार को जड़ से ही उन्मूलन** करने तथा सुशासन लाने के लिए।
10. **'राइट टू रिक्वाल', 'राइट टू रिजेक्ट', 'सूचना का अधिकार'** जैसे प्रावधान प्रभावकारी तरीके से संस्थागत करने के लिए।

11. स्थानीय जनप्रतिनिधि व कर्मचारी जो 'छोटे राजा' बनकर जनता का दमन शोषण कर रहे हैं, कर/राजस्व से बसूले पैसे पर ऐग्यासी और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसे रोकने के लिए।
12. सरकारी कर्मचारी, पुलिस व सेना से हो रहे दमन बंद करने के लिए।
13. मधेश में १० लाख रोजगारी सिर्जना करके 'हर घर एक रोजगारी' देने के लिए।
14. परदेश में रहते आये युवाओं के लिए स्वदेश में ही रोजगारी की व्यवस्था करने के लिए।
15. शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक सुधार लाने के लिए।
16. जातीय विभेद, दमन, शोषण और छुवाछूत सहित सारे किस्म के विभेद हटाने के लिए।
17. समानुपातिक समावेशी तथा उत्पीडित एवं पिछड़ा वर्ग लक्षित समतामूलक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए। सेना और पुलिस में मधेशियों की सामूहिक भर्ती के लिए।
18. सभी जनता के लिए खाना, कपड़ा, आवास और भूमि, +2 तक निःशुल्क शिक्षा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एकीकृत सामाजिक सुरक्षा, योग्य सभी के लिए रोजगार सहित **समाजवाद** एवं **लोककल्याणकारी राज्य** स्थापित करने के लिए।
19. नेपाल के संविधान संशोधन करते हुये विभेदपूर्ण सीमांकन और प्रावधान को न्यायसंगत करने के लिए।
20. हरेक नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने एक वर्ष अनिवार्य स्वयंसेवक तालिम के लिए।
21. नागरिकतासमस्या के स्थायी समाधान के लिए।
22. चुरिया पर्वत को संरक्षित क्षेत्र बनाकर आप्रवासन को व्यवस्थापन करने के लिए। एक करोड़ वृक्षारोपण करके पर्यावरण बचाने में योगदान देने के लिए।
23. समृद्धि और विकास के लिए। मधेश के लिए वैदेशिक लगानी लाने के लिए।
24. समग्र में, मधेश थरुहट मुस्लिम दलित जनजाति अल्पसंख्यक सीमान्तकृत सहित के आन्दोलन के शहीदों के सपने साकार करने के लिए।

डा. सी. के. राउत का नेतृत्व:

विलायत की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पिएच. डी. किये तथा अमेरिका में वैज्ञानिक रह चुके, 'मधेश का इतिहास', 'मधेश स्वराज', 'वीर मधेशी', 'वैराग से बचाव तक' आदि किताबें लिखकर मधेश में पुनर्जागरण लानेवाले, मधेश के लिए २ दर्जन बार गिरफ्तार होकर हिरासत/जेल काटनेवाले तथा अनेकों यातना सहनेवाले, लाख दुःखकष्ट सहकर भी मधेश की भूमि पर ही रहकर सेवा करनेवाले, अपना सब सुखशायल त्याग करके मधेश के उत्थान के लिए दिनरात अपनी जान पर खेलनेवाले डा. सी. के. राउत के नेतृत्व में मधेश को समृद्ध और अधिकार सम्पन्न बनायें। जनमत पार्टी (निर्वाचन आयोग दर्ता नं. १५०) का सदस्य बनने के लिए सम्पर्क: 9804793880 या

<http://janamatparty.org/join>

जय मधेश, जय जनमत, जय स्वराज !